



BANGALORE
BEIJING
CAPE TOWN
CHANDIGARH
DELHI
GOA
HYDERABAD
JOHANNESBURG
KOLKATA
LONDON
LOS ANGELES
MUMBAI
NEW YORK
SINGAPORE
TORONTO
VANCOUVER

Date: March 5, 2021

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai 400 001
E-mail: corp.relations@bseindia.com
(Scrip code: 532748)

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra-Kurla-Complex, Bandra (East)
Mumbai – 400 051
E-mail: takeover@nse.co.in
(Symbol: PFOCUS)

Dear Sir/Madam,

Sub: Intimation under Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended

This is in furtherance with the communication received from Keynote Financial Services Limited (Keynote) wherein they had filed the Public Announcement with the stock exchanges on December 24, 2020, published Detailed Public Statement in Newspapers in terms of Regulation 14(3) of SEBI (SAST) Regulations, 2011 on January 1, 2021 and filed the Draft Letter of Offer and Letter of Offer with the stock exchanges and SEBI on January 8, 2021 and on February 12, 2021 respectively and published Advertisement cum Corrigendum in Newspaper in terms Regulation 18(7) of SEBI (SAST) Regulations, 2011 on February 22, 2021.

We hereby further inform you that the Company has received a communication dated March 5, 2021 from Keynote that, with respect to the appeals filed before the Hon'ble Securities Appellate Tribunal ("SAT") by Reliance Mediaworks Financial Services Private Limited and another, as well as one Anupkumar Sheth, a notice to the public Shareholders of the Target Company has been published today by the Acquirer & PACs giving status of the said appeals.

The notice has been published in the same newspapers where the Detailed Public Statement ("DPS") had appeared.

The copy of the notice received from Keynote is enclosed for your information.

We request you to take the same on record.

Sincerely,

For Prime Focus Limited

Parina Shah



Parina Shah
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above

Rural power supply duration rose to 18.5 hours a day: RK Singh

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, March 4



AVERAGE RURAL POWER supply duration increased from 12.5 hours in 2014-15 to 18.5 hours in 2019-20, power minister RK Singh has said.

The minister was addressing the power ministry Parliamentary Consultative Committee in a meeting on Wednesday, a statement said.

"R.K Singh, Minister of State (Independent charge), Ministry of Power, has informed that the average rural power supply duration has increased from 12.5 hours in 2014-15 to 18.5 hours in 2019-20," it said.

Replying to the queries of members of Parliament, Singh explained that some of the major reform initiatives which the Ministry of Power has recently undertaken include Universal Access to Electricity; reliable, quality and sustainable supply; empowering consumers and green and clean nation.

He mentioned that the 100% village electrification has been achieved 13 days before target while 100% household electrification has been achieved under Saubhagya scheme. He also informed about the steps taken by the ministry for the empowerment of consumers.

The Electricity (Rights of Consumers) Rules were rolled out by power ministry in December, 2020, with emphasis that power system

exists to serve consumers with mandated service standards and mandatory round the clock call centre.

The power minister stated that the country has been transformed from a power deficit to a power surplus nation as at present the total installed capacity in country is 3.77 lakh MW as compared to Peak Demand of 1.89 lakh MW.

"We have achieved the target of One Nation-One Grid-One Frequency with the addition of Transmission Lines of 1.42 lakh ckm (circuit km) and Transformation Capacity of 437 MVA in FY 15-20," he informed.

He provided details of the steps taken by the government for reliable, quality and sustainable power supply like flexibility in coal utilisation amongst the generation stations leading to savings of ₹1,447 Cr/ year in NTPC, introduction of new products in power exchange (Real Time Market and Green Term Ahead Market) and Payment Security through letter of credit mechanism to tackle the issue of outstanding dues of power generation firms.

Rawat presents ₹57,400-cr FY22 budget for U'khand with health, infra in focus

PRESS TRUST OF INDIA
Gairsain, March 4



UTTARAKHAND CHIEF MINISTER Trivendra Singh Rawat on Thursday presented a ₹57,400.32-crore budget for 2021-22 in the Assembly here with emphasis on health, rural infrastructure, education, employment generation and agriculture.

Tabling the Budget in the post-lunch session of the Assembly, the chief minister said it will help in fulfilling the aspirations of the people.

The Budget contains the vision of a self-reliant Uttarakhand which is essential to the realisation of Prime Minister Narendra Modi's vision of a self-reliant India, he said.

The chief minister began his budget speech by saluting those who fought for the statehood of Uttarakhand and to those who are always ready to lay down their lives to protect the country's borders and people from all sections combating the challenge posed by the COVID-19 pandemic.

He also thanked the Centre for giving its valuable support

to the state government in its endeavours to bring about development in the state.

Rawat said many things have happened with the Centre's support in Uttarakhand in the last four years which were hard to think of during previous governments including Rishikesh Karnaprayag rail link project, Chardham all-weather road project, Kedarnath Dham Reconstruction project, Bharatmala project, Jamrani multi-purpose project and the Namami Gange project.

The Budget makes a provision of ₹3,319.63 crore for medical and family welfare department, ₹1,511.29 crore for PWD, ₹954.75 crore for PM Gram Sadak Yojana, ₹695.16 crore for important infrastructure schemes and ₹385.27 crore for annual maintenance and renovation of roads, Rawat said.

NOTICE IN RESPECT OF THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

PRIME FOCUS LIMITED

(hereinafter referred to as the "Target Company")
(CIN: L92100MH1997PLC108981)

Registered Office: Prime Focus House, Linking Road, Opp. Citi Bank, Khar (West), Mumbai, Maharashtra, 400052;
Tel No: 022-67155000; **Fax No:** 022-67155001 / 67155100; **Website:** www.primefocus.com;

This notice is being issued in respect of the open offer by A2R Holdings ("Acquirer") along with ARR Studio Private Limited ("PAC 1") and Mr. Namit Malhotra ("PAC 2", together with PAC 1, "PACs") to acquire up to 8,23,71,046 (Eight Crores Twenty Three Lakh Seventy One Thousand Forty Six) fully paid-up equity shares of face value of INR 1/- (Rupees One Only) each ("Equity Shares") of the Target Company from its Public Shareholders, at offer price of INR 44.15 (Rupees Forty Four and Fifteen paise) per fully paid-up Equity Share, representing 26% of the Expanded Voting Share Capital of the Target Company ("Offer").

Note: The capitalized terms used but not defined in this Notice shall have the meanings assigned to them in the Letter of Offer dated February 9, 2021 ("LOF") in respect of the Offer.

The Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following:

- The Tendering Period under the Offer commenced on February 23, 2021 and is scheduled to close on March 8, 2021.
- In relation to the Offer, Reliance Mediaworks Financial Services Private Limited and another, as well as Anupkumar Sheth, have filed two separate appeals before the Hon'ble Securities Appellate Tribunal ("SAT"), against the Securities and Exchange Board of India, IDBI Trusteeship Services Limited, Credit Suisse A.G, Manager to the Offer, the Acquirer, PACs and the Target Company alleging inter alia, that the fair value of shares of the Target Company in the Offer, which was computed for the purposes of determining the Offer Price, was not correct.
- The Hon'ble SAT has heard detailed arguments of all parties in relation to the aforesaid appeals, and on March 3, 2021, reserved the matters for further orders, with a direction that the Offer is subject to the final outcome of the appeals. A copy of the said order of March 3, 2021, of Hon'ble SAT, is awaited. Consequently, subject to orders that may be passed in the said appeals, the offer will continue as schedule and as set out in the LOF for the offer.

Issued on behalf of the Acquirer & PACs by the Manager to the Offer.

KEYNOTE

Keynote Financial Services Limited
The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400 028
Tel: +91-22-6826 6000-3; **Fax:** +91-22-6826 6088
E-mail: mbd@keynoteindia.net; **Website:** www.keynoteindia.net
Contact Person: Ms. Pooja Sanghvi/Mr. Shashank Prasad
CIN: L67120MH1993PLC072407
SEBI Registration No.: INM 000003606

On behalf of the Acquirer and the PACs		
Sd/- A2R Holdings	Sd/- ARR Studio Private Limited	Sd/- Namit Malhotra

Place: Mumbai
Date: March 04, 2021

HDFC MUTUAL FUND
BHAROSA APNO KA

HDFC Asset Management Company Limited

A Joint Venture with Standard Life Investments
CIN: L65991MH1999PLC123027

Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020. Phone: 022 66316333 • Toll Free Nos: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676
Fax: 022 22821144 • e-mail: cliser@hdfcfund.com • Visit us at: www.hdfcfund.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that HDFC Trustee Company Limited, Trustee to HDFC Mutual Fund ("the Fund"), has approved the declaration of dividend / income distribution ("dividend") in the following Scheme(s) / Plan(s) of the Fund and fixed **March 10, 2021** (or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day) as the Record Date for the same as given below:

Name of the Scheme / Plan / Option	Net Asset Value ("NAV") as on March 3, 2021 (₹ per unit)	Amount of Dividend* (₹ per unit)	Face Value (₹ per unit)
HDFC TaxSaver - Regular Plan - Dividend Option (Payout)	53.725	5.00	10.00
HDFC TaxSaver - Direct Plan - Dividend Option (Payout)	62.579	3.75	
HDFC Long Term Advantage Fund - Regular Plan - Dividend Option (Payout)	45.681	4.00	
HDFC Long Term Advantage Fund - Direct Plan - Dividend Option (Payout)	50.176		

* The dividend will be subject to the availability of distributable surplus on the Record Date and may be lower.

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the Dividend Option(s) of the above Scheme(s) would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.

Dividend will be paid, net of applicable tax deducted at source (TDS), to those Unit holders / Beneficial Owners whose names appear in the Register of Unit holders maintained by the Fund / Statements of Beneficial Ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the Dividend Option(s) of the aforesaid Scheme(s) on the Record Date (including in case of HDFC TaxSaver, investors whose valid purchase / switch-in requests are received by the Fund and the funds are available for utilization before cut-off timings in respect of the aforesaid Scheme(s), on the Record date).

In view of individual nature of tax consequences, each investor should seek appropriate advice.

For HDFC Asset Management Company Limited

Place : Mumbai
Date : March 4, 2021

Sd/-
Authorized Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Power Exchange India Limited
Sumer Plaza, Unit No.901, 9th floor, Marol Maroshi Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059, India.
Tel: +91 22 4009667/87 Fax: +91 22 4009633/90
Email: info@pxil.co.in, CIN:U74900MH2008PLC179152

Trading Month February 2021

Markets Traded	DAS		INTRADAY		ANYDAY	
	Prices (Rs/KWh)	Volume (MUs)	Prices (Rs/KWh)	Volume (MUs)	Prices (Rs/KWh)	Volume (MUs)
Min	2.50	9.00	9.02	0.11	2.60	9.69
Max	13.95	0.47	6.64	6.40	6.51	27.22
Avg.	3.71	0.27	9.88	1.12	3.70	16.64
Total		7.44		14.55		465.89

PUBLIC NOTICE

Indian Overseas Bank

Central Office, 763, Anna Salai, Chennai-600 002

This is to inform you that Indian Overseas Bank has voluntarily surrendered Certificate of Registration as debenture Trustee issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI) bearing the **Registration No: IND000000014 W.E.F. 01.03.2021**

This notice is being given in compliance of the SEBI/MIRSD/ DOP2/CIR/P/000000063 dated April 9, 2018 of SEBI (Securities & Exchange Board of India Intermediaries)

Place: Chennai
Date: 04.03.2021

General Manager & CFO

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

LAKSHMI AUTOMATIC LOOM WORKS LIMITED

Regd. Office : 686, Avanashi Road, Pappanaickenpalayam, Coimbatore - 641 037
E-mail : contact@lakshmiautomatic.com | Website : www.lakshmiautomatic.com
Phone : +91 422 2245484, 2245485 Fax : +91 422 2244887
CIN : L29269TJ1973PLC000680

NOTICE

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, 24th March, 2021 at 11.00 A.M through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).

- The Company has sent the EGM Notice through e-mail on 2nd March, 2021 to those shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories in accordance with the Circular No.20/2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 5th May, 2020 read with Circular No.14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No.17/2020 dated 13th April, 2020 and Circular No.39/2020 dated 31st December, 2020 ("MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular dated 12th May, 2020.
- The EGM Notice is available on the website of the Company viz., www.lakshmiautomatic.com and the website of Stock Exchange in which the shares of the Company are listed (BSE Limited) viz., www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) viz., www.evoting.nsdl.com.
- Members can attend and participate in the EGM through VC / OAVM facility only. The instructions for joining the EGM are provided in the EGM Notice. Members attending the meeting through VC / OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of The Companies Act, 2013.
- The Company is providing Remote e-voting facility through NSDL for transacting all the proposed businesses containing in the Notice of the EGM. Additionally the Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the EGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting / e-voting is provided in the Notice of the EGM. For further details in connection with e-voting, Members may also visit the NSDL website: www.evoting.nsdl.com.
- The Remote e-voting will commence on 21st March, 2021 (Sunday) at 9.00 A.M. and end on 23rd March, 2021 (Tuesday) at 5.00 P.M.
- The Remote e-voting shall not be allowed after 5.00 P.M. on 23rd March, 2021 (Tuesday).
- In case of any queries, the Members can E-mail at evoting@nsdl.co.in or contact: M/s.S.K.D.C. Consultants Ltd, Kanapathy Towers, 3rd Floor, 1391/A-1, Sathy Road, Ganapathy, Coimbatore - 641 006, Phone No. +91 422 4958995, 2539835, 2539836, Fax No. +91 422 2539837, E-mail : info@skdc-consultants.com and website: www.skdc-consultants.com.
- Equity Shareholders of the Company holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the cut-off date of 17th March, 2021 only shall be entitled to avail the facility of Remote e-voting or e-voting at the EGM.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the notice has been sent electronically by the Company and holds shares as on the cut-off date i.e. 17th March, 2021, may obtain the Login Id and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to the RTA at info@skdc-consultants.com or contact them at the address as mentioned above.
- A member even after exercising his right to vote through Remote e-voting may attend the Extra Ordinary General Meeting through VC/OAVM but shall not be allowed to vote again.
- In case the Member's email ID is already registered with the Company/ Registrar & Share Transfer Agent ("RTA")/ Depositories, login details for e-voting are being sent on the registered email address. If you have not registered your e-mail address with the Company / RTA / Depository, you may please follow the below mentioned instructions for obtaining login details for e-voting:
 - Members holding shares in physical mode are requested to send a request to the RTA at green@skdc-consultants.com by providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested), Aadhaar (Self-attested) for registering the e-mail address.
 - Members holding shares in demat form can update their e-mail address by submitting a request to the concerned Depository Participant with whom they have opened their demat account.
- The result of voting on the Resolutions shall be declared within 2 days of the conclusion of the EGM. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website : www.lakshmiautomatic.com and on the website of NSDL: www.evoting.nsdl.com and communicated to the BSE Ltd, Mumbai.
- Since this EGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC/OAVM, physical presence of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the EGM.

For Lakshmi Automatic Loom Works Ltd
R. Muthukumar
Company Secretary

Place : Coimbatore
Date : 03.03.2021

ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.
Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051.
Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprurf.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com
Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund, ICICI Prudential Manufacture in India Fund and ICICI Prudential Value Discovery Fund (the Schemes)

Notice is hereby given that ICICI Prudential Trust Limited, Trustee to ICICI Prudential Mutual Fund has approved declaration of the following dividend under the dividend option of the Schemes, subject to availability of distributable surplus on the record date i.e on March 10, 2021*:

Name of the Schemes/Plans	Dividend (₹ per unit) (Face value of ₹ 10/- each) ^{§#}	NAV as on March 3, 2021 (₹ Per unit)
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund		
Half Yearly Dividend	0.1047	10.5436
Direct Plan - Half Yearly Dividend	0.1155	10.8238
ICICI Prudential Manufacture in India Fund		
Dividend	1.00	14.31
Direct Plan - Dividend	1.00	14.80
ICICI Prudential Value Discovery Fund		
Dividend	3.75	30.10
Direct Plan - Dividend	3.75	63.02

§ The dividend payout will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the record date under the dividend option of the Schemes.

Subject to deduction of applicable statutory levy.

* or the immediately following Business Day, if that day is a Non - Business Day.

Dividend will be paid to all the unit holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the dividend option of the Schemes, at the close of business hours on the record date.

It should be noted that pursuant to payment of dividend, the NAV of the dividend option of the Schemes would fall to the extent of dividend payout and statutory levy (if applicable).

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Place : Mumbai
Date : March 4, 2021

Sd/-
Authorised Signatory

No. 002/03/2021

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprurf.com

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id and mobile number to support paper-less communications.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit <https://www.iciciprurf.com> or visit AMFI's website <https://www.amfiindia.com>

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

L&T Mutual Fund
6th Floor, Brindavan, Plot No. 177
C. S. T. Road, Kalina
Santacruz (East), Mumbai 400 098

call 1800 2000 400
email investor.line@lntmf.co.in
www.ltfs.com

L&T Financial Services
Mutual Fund

Notice-Cum-Addendum (No. 46 of F.Y. 2020 - 2021)

1. Change in address of Investor Service Centre of the AMC:

Notice is hereby given that the address of the Investor Service Centre of L&T Investment Management Limited (the AMC) located at Bangalore & Hyderabad will be changed effective from March 08, 2021 as follows:

Existing Address	New Address
Unit No.1, 3 rd Floor, Pride Hulkul, No. 116, Lalbagh Road, Near Passport Office, Bangalore - 560 027.	Site No. 92, Zed Square, 1 st Floor, Industrial Layout, JNC Road, 5 th Block, Koramangala, Bangalore - 560 095.
4 th Floor, 7-1-21/A, Survey No. 341/1, Rajbhavan Road, Begumpet, Hyderabad - 500 016.	2 nd Floor, Unit No.203/2, Block - 1, 6-3-1192/1/1, Kundanbagh, White House, Begumpet, Hyderabad - 500 016.

2. Change in address of Sales Office of the AMC:

Notice is hereby given that the address of the Sales Office of L&T Investment Management Limited (the AMC) located at Guwahati will be changed effective from March 08, 2021 as follows:

Existing Address	New Address
2 nd Floor, DD Tower, Christian Basti, Guwahati - 781 005.	3 rd Floor, Kushan Plaza, Dispur, G.S Road, Guwahati - 781 006.

The Notice-cum-Addendum forms an integral part of the Scheme Information Document (SID) & Key Information Memorandum (KIM) of the Schemes of L&T Mutual Fund as applicable. All other terms and conditions of the SAI/SID/KIM of the Fund will remain unchanged.

Investors are requested to take note of the above.

For L&T Investment Management Limited
(Investment Manager to L&T Mutual Fund)

Date : March 04, 2021
Place : Mumbai

Sd/-
Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

